



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 30.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना कबरई पुलिस टीम ने वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार कब्जे से अवैध तमंचा व जिन्दा कारतूस बरामद...

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अपराधियों तथा अवैध शस्त्र धारकों के विरुद्ध चलाये जा रहे गिरफ्तारी अभियान के क्रम में आज दिनांक 30.07.2021 को थानाध्यक्ष कबरई श्री दिनेश सिंह के द्वारा गठित उ0नि0 ब्रम्हादीन के नेतृत्व में टीम ने थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 231/2021 धारा 504/506/307 भादवि व धारा 3(1)द, 3(1)ध, 3(2)5क, 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट में वांछित चल रहे अभियुक्त शानू मुहम्मद पुत्र रमजान मुहम्मद उम्र करीब 32 वर्ष निवासी भीतर कोट चौकी मनियादेव थाना कोतवाली नगर महोबा हाल पता मु0 किदवई नगर कस्बा कबरई थाना कबरई जिला महोबा को मुखबिर खास की सूचना पर गिरफ्तार किया गया तथा गिरफ्तारी के दौरान अभियुक्त की जामा तलाशी से 01 अदद तमंचा 315 बोर व 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ, बरामदगी के आधार पर अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 232/21 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया बाद आवश्यक विधिक कार्यवाही सम्पादित करते हुये अभियुक्त को मां0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

शानू मुहम्मद पुत्र रमजान मुहम्मद उम्र करीब 32 वर्ष निवासी भीतर कोट चौकी मनियादेव थाना कोतवाली नगर महोबा हाल पता मु0 किदवई नगर कस्बा कबरई थाना कबरई जनपद महोबा।



गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. उ0नि0 ब्रम्हादीन
2. कां0 शिवम कुमार 3. रि0कां0 अंकित सिंह।



प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 30.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



थाना श्रीनगर पुलिस टीम ने 02 नफर वांछित अभियुक्त किये गिरफ्तार...।

पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के निर्देशन पर जनपदीय पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना श्रीनगर SHO श्री अनिल कुमार द्वारा गठित व0उ0नि0 लाखन सिंह के नेतृत्व में टीम ने थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 05/21 धारा 147/148/308/323/504/325 भादवि के वांछित 02 नफर अभियुक्त क्रमश 1. बालादीन पुत्र सुरैया उर्फ सुखइया कुशवाहा उम्र 65 वर्ष व 2. सन्तोष पुत्र बृजलाल कुशवाहा उम्र 40 वर्ष को कैमाहा बस स्टैण्ड तिराहे के पास से गिरफ्तार किया गया तथा अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुये अभियुक्तगणों को मान0 न्यायालय के समक्ष पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. व0उ0नि0 लाखन सिंह
2. हे0का0 भारत लाल
3. कां0 शैलेश कुमार

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. बालादीन पुत्र सुरैया उर्फ सुखइया कुशवाहा उम्र 65 वर्ष
2. सन्तोष पुत्र बृजलाल कुशवाहा उम्र 40 वर्ष
निवासीगण ग्राम इमिलिया थाना श्रीनगर जनपद महोबा।





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 30.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना अजनर का किया गया

आकस्मिक निरीक्षण

क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा थाना खन्ना एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी द्वारा थाना श्रीनगर का किया गया निरीक्षण

परिसर का भ्रमण कर बरसात के मौसम में साफ-सफाई रखने हेतु प्र०नि० अजनर को निर्देशित किया गया।

इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी नगर श्री रामप्रवेश राय द्वारा थाना खन्ना एवं क्षेत्राधिकारी चरखारी श्री उमेश चन्द्र द्वारा थाना श्रीनगर के थाना कार्यालय एवं महिला हेल्प-डेक्स का निरीक्षण किया गया एवं सर्व-सम्बन्धित को उक्त दिशा-निर्देश भी दिये गये।



आज दिनांक 30.07.2021 को अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम द्वारा थाना अजनर का आकस्मिक निरीक्षण किया गया। जिसके तहत एएसपी द्वारा थाना कार्यालय के अभिलेखों को चेक किया गया, CCTNS के तहत आने वाले सभी कार्यों को आनलाइन करने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया एवं हिस्ट्रीशीटों की लगातार निगरानी करने, शांति अपराधियों पर पैनी नजर रखने हेतु प्र०नि०/सम्बन्धित को निर्देशित किया गया। थाने पर स्थापित महिला हेल्प डेक्स पर आने वाले फरियादियों की समस्याओं का समयबद्ध उचित निस्तारण करने हेतु प्र०नि० अजनर को निर्देशित किया गया। थाना





प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक:- 30.07.2021

महोबा पुलिस

सोशल मीडिया सेल



अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना अजनर में, क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा थाना खन्ना में पैदल गस्त करके की गई संदिग्धों की चेकिंग

आज दिनांक 30.07.2021 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्रीमती सुधा सिंह के कुशल निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक श्री आर०के० गौतम द्वारा थाना अजनर पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्र के मुख्य बाजार/चौराहो/धार्मिक-स्थलो पर पैदल गस्त करके संदिग्ध वाहनो एवं व्यक्तियो की चेकिंग की गई एवं एसपी द्वारा पैदल गस्त के दौरान प्र०नि० अजनर को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।

सीओ नगर श्री रामप्रवेश राय द्वारा थाना खन्ना पुलिस बल के साथ थाना क्षेत्र में पैदल गस्त करके संदिग्धों की चेकिंग की गई एवं लोगो को कोविड संक्रमण के प्रति जागरूक किया गया।

इसी क्रम में प्रभारी महिला पुलिस चौकी चरखारी उ०नि० नीलम यादव एवं उ०नि० शिल्पी शुक्ला महिला थाना मय फोर्स के थाना क्षेत्र में पैदल गस्त करके महिलाओं एवं बालिकाओं से वार्ता की गई एवं इनकी समस्याओं को पूछा गया।

यातायात नियमो के उल्लंघन पर **55 ई-चालान** व कोविड-19 नियमो के उल्लंघन पर **17 व्यक्तियों से 1700/-रु० शुल्क वसूला गया।**

